



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2004/फाल्गुन 28, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2004/PHALGUNA 28, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2004

का.आ. 370(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखंड (ii) के अनुसरण में गृह सचिव-सह-मुख्य सतर्कता अधिकारी और पुलिस अधीक्षक या ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक-सह-प्रभारी सतर्कता प्रकोष्ठ, चण्डीगढ़ प्रशासन को उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[104/2004/फा. सं. 286/54/2003-आई.टी. (आई.एन.वी.-II)]

शरत चन्द्रा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2004

S.O. 370(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of Section 138 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies Home Secretary-cum-Chief Vigilance Officer and Superintendent of Police or Senior Superintendent of Police-cum-Incharge Vigilance Cell, Chandigarh Administration, for the purposes of the said sub-clause.

[104/2004/F. No. 286/54/2003-IT (Inv.-II)]

SHARAT CHANDRA, Director